

**BLIS-08**

June - Examination 2018

**Bachelor of Library and Information  
Science Examination****Computer : Basics and Applications****कम्प्यूटर : आधार एवं अनुप्रयोग****Paper - BLIS-08****Time : 3 Hours ]****[ Max. Marks :- 80**

**Note:** The question paper is divided into three sections A, B and C. Write answers as per the given instructions.

**निर्देश :** यह प्रश्न पत्र 'अ', 'ब' और 'स' तीन खण्डों में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

**Section - A****8 × 2 = 16****(Very Short Answer Questions)**

**Note:** Answer **all** questions. As per the nature of the question delimit your answer in one word, one sentence or maximum up to 30 words. Each question carries 2 marks.

**खण्ड - 'अ'****(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)**

**निर्देश :** सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को प्रश्नानुसार एक शब्द, एक वाक्य या अधिकतम 30 शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।

- 1) (i) Define Library network.  
पुस्तकालय नेटवर्क की परिभाषा दीजिए।
- (ii) Write full form of OPAC.  
ओपेक का विस्तृत नाम लिखिए।
- (iii) What do you mean by “Search term”?  
खोज पद से आपका क्या आशय है?
- (iv) What is system software?  
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है?
- (v) Define “Database”.  
डेटाबेस को परिभाषित कीजिए।
- (vi) Write full form of SOUL.  
सॉल का विस्तृत नाम कीजिए।
- (vii) What do you mean by “Boolean Logic”?  
“बूलियन लॉजिक” से क्या तात्पर्य है?
- (viii) Write the name of any three output devices.  
किन्हीं तीन आउटपुट डिवाइसेस के नाम बताइये।

**Section - B****4 × 8 = 32**

(Short Answer Questions)

**Note:** Answer **any four** questions. Each answer should not exceed 200 words. Each question carries 8 marks.

**खण्ड - ब**

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

**निर्देश :** किन्हीं **चार** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को अधिकतम 200 शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है।

- 2) What is computer? Discuss development of computer.  
कम्प्यूटर क्या है? कम्प्यूटर के विकास की चर्चा कीजिए।
- 3) What is computer network? Explain LAN, WAN and MAN.  
कम्प्यूटर नेटवर्क क्या होता है? लैन, वैन और मैन को समझाइये।
- 4) Discuss the various barriers in the way of library automation.  
पुस्तकालय स्वचालन के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं की चर्चा कीजिए।
- 5) What is primary memory ? Explain.  
प्राथमिक स्मृति (मेमोरी) क्या होती है। समझाइये।
- 6) What do you mean by data communication? Explain data communication modes.  
डेटा संचार से आपका क्या आशय है? डेटा संचार विधियों को समझाइये।
- 7) Describe applications of internet in libraries.  
इन्टरनेट का पुस्तकालयों में अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए।
- 8) Explain the need and advantages of library network.  
पुस्तकालय नेटवर्क की आवश्यकता एवं लाभों को स्पष्ट कीजिए।

- 9) Define current awareness services and discuss its need and characteristics.  
सामायिक जागरूकता सेवा को परिभाषित कीजिए एवं इसकी आवश्यकता एवं अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए।

### Section - C

2 × 16 = 32

(Long Answer Questions)

**Note:** Answer **any two** questions. You have to delimit your each answer maximum up to 500 words. Each question carries 16 marks.

### खण्ड - स

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

**निर्देश :** किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को अधिकतम 500 शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों का है।

- 10) Define internet. What all services are provided by it? Explain.  
इन्टरनेट को परिभाषित कीजिए। इसके द्वारा कौन - कौन सी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं? समझाइये।
- 11) Discuss the applications of computer in circulation system.  
परिसंचालन प्रणाली में कम्प्यूटर के अनुप्रयोग की विवेचना कीजिए।
- 12) Define selective dissemination of information service (SDI).  
Describe processes of SDI.  
चयनित सूचना प्रसारण की परिभाषा दीजिए। चयनित सूचना प्रसारण सेवा की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए।
- 13) Write a note on information and library network (INFLIBNET)  
इन्फ्लिबनेट (इंफोर्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क) पर टिप्पणी लिखिए।